



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2514]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2017/भाद्र 10, 1939

No. 2514]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2017/BHADRA 10, 1939

I Md ifjogu vkj jktekxZ ea=ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

dk-vk- 2873¼½&केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि त्रिपुरा राज्य के गोमाती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 38.975 किमी से 55.000 किमी तक के भूखण्ड ( अगरतला- उदयपुर सेक्शन ) के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, गोमाती को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

**अनुसूची**

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 38.975 किमी. से 55.000 किमी. तक (अगरतला - उदयपुर सेक्शन) भूमि के हिस्से में आ रही इमारत सहित या उसे छोड़कर अधिगृहीत की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वे संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोमाती	(1) बगमा	(1) करायामुरा	74/पी	रायाती	लुंगा	81
				66/पी	त्रिपुरा सरकार	विति (टिल्ला)	81
				250/पी	त्रिपुरा सरकार	लायेकपतित (टिल्ला)	81
			(2) बरभइया	1250	अकृषि	डोकन (नाल)	81
				1270/3283	रायाती	विति (टिल्ला)	12
				1267/पी	रायाती	बास्तु (टिल्ला)	48
		(2) राधाकिशोरपुर	(1) राजरबाग	2045/3268/पी	रायाती	बास्तु (नाल)	40
			(2) फूलकुमारी	469/5478	रायाती	बास्तु (नाल)	40
				470/पी	रायाती	विति (टिल्ला)	40
योग							504

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/त्रिपुरा/एलए/2015-16/एनएच-44/ए यू एस/भाग 1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2017

**S.O. 2873(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / two-laning with paved shoulders, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. – 44, in the stretch of land from Km. 38.975 to Km. 55.000 (Agartala – Udaipur Section) in the District of Gomati in the State of Tripura, hereby declares its intention to acquire such land.

Any persons interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land land for the aforesaid purpose under Sub-Section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Additional District Magistrate & Collector, Gomati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The final plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of the Additional Land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 38.975 to km 55.000 (Agartala- Udaipur section) of the National Highway No. 44 in the state of Tripura

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in Square meters
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gomati	(1) Bagma	(1) Karaiyamura	74/P	Rayati	Lunga	81
				66/P	Govt of Tripura	Viti (Tilla)	81
				250/P	Govt of Tripura	Layekpatit (Tilla)	81
			(2) Barabhiya	1250	Akrishi	Dokan (Nal	81
				1270/3283	Rayati	Viti (Tilla)	12
				1267/P	Rayati	Bastu (Tilla)	48
		(2) Radhakishorepur	(1) Rajarbag	2045/3268/P	Rayati	Bastu (Nal)	40
			(2) Fulkumari	469/5478	Rayati	Bastu (Nal)	40
				470/P	Rayati	Viti (Tilla)	40
Total							504

[F. No. NHIDCL/Tripura/LA/2015-16/NH-44/AUS/Part 1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.